

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

प्रस्तावार्थ

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 30, 1968/माघ 10, 1889

No. 18]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 30, 1968/MAGHA 10, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1968

संख्या 14(1)/68 सी० ओ० आर०—भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य की जो समीक्षा समिति भारत सरकार, श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) के संकल्प संख्या 5(21)/66 आर-ई दिनांक 6 जनवरी, 1967 द्वारा स्थापित की गई थी और जिसमें श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय, (पुनर्वास विभाग) के संकल्प संख्या 1(1)/67—सी० ओ० आर० दिनांक 5 अप्रैल, 1967 द्वारा संशोधन किया गया था, उक्त समिति में श्री अनिल दे, पुनर्वास विभाग में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्थान पर श्री बी० बी० सूद, श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) में भारत सरकार के संयुक्त सचिव, 20 दिसम्बर, 1967 अपराह्न से समिति में सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

आवेस

आवेस दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेज दी जाये :—

1. समिति के सदस्य ।
2. भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग ।
3. योजना आयोग, प्रधान मंत्री का सचिवालय, मंत्री-मंडल का सचिवालय तथा राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिव ।

यह भी आवेस दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में आभ जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाये ।

बी० तन्जप्पा, सचिव ।